

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 657]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2018—पौष 8, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2018

क्र. बी-1-98-2018-2-एक.-इस विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-44-2010-2-एक, दिनांक 21 जून 2013 से राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कुल पद संख्या 774 नियत की गई थी.

2. उक्त आदेश को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1975 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्न सारणी के कॉलम 03 में वर्णित अनुसार पदों को राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों के रूप में सम्मिलित करते हुए अधिसूचित करता है :-

स.क.	विवरण	पदों की संख्या
1	राजस्व विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय हेतु सृजित पद	21
2	राजस्व विभाग द्वारा जिला कार्यालय हेतु अपर कलेक्टर के सृजित पद	11
3	राजस्व विभाग द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय हेतु डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर के सृजित पद	55
4	राजस्व विभाग द्वारा संभागायुक्त कार्यालय हेतु सृजित पद	05
5	राजस्व विभाग द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में समन्वय हेतु उच्च न्यायालय में समन्वय हेतु	03
6	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर में लिटिगेशन एवं समन्वय हेतु सृजित पद	04
	पदों का कुल योग	99

3. उपरोक्तानुसार संवर्ग की पुनरीक्षित पद संख्या 873 का राज्य शासन, एतद्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी, प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी तथा कनिष्ठ श्रेणी वेतनमानों में निम्नानुसार पद संख्या निर्धारण करता है :-

संवर्ग में स्वीकृत वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या	नियत प्रतिशत
अधिसमय वेतनमान रुपये 37400-67000+8900 मेट्रिक्स लेवल-16	02	00.25 प्रतिशत
वरिष्ठ प्रवर श्रेणी रुपये 37400-67000+8700 मेट्रिक्स लेवल-15	59	06.75 प्रतिशत
प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100+7600 मेट्रिक्स लेवल-14	140	16 प्रतिशत
वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100+6600 मेट्रिक्स लेवल-13	236	27 प्रतिशत
कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100+5400 मेट्रिक्स लेवल-12	436	50 प्रतिशत
योग	873	100 प्रतिशत

4/ उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित संख्या का विभाजन नीचे दर्शाये अनुसार होगा :
स्थायी / अस्थायी

1. ड्यूटी पद	
(अ) जिलों के लिये	551
(ब) विभागों के लिये	222
2. प्रतिनियुक्ति रक्षित पद	055
3. प्रशिक्षण रक्षित पद	031
4. अवकाश रक्षित पद	014

कुल पद 873

5/ जिलों के लिये आवंटित अतिरिक्त पदों को मिलाकर अब जिलावार स्वीकृत पदों की संख्या संलग्न परिशिष्ट "एक" एवं "दो" पर है। विभागों के लिये आवंटित पदों को मिलाकर ऐसे पदों की सूची जिन पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ किये जाएंगे परिशिष्ट "तीन" अनुसार है।

6. यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रश्मि अरूण शर्मा, प्रमुख सचिव "कार्मिक".

परिशिष्ट "एक"

जिलों के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों का आवंटन

स. क	जिले का नाम	अनुविभागों की संख्या	अनुभागों के लिए स्वीकृत पद	मुख्यालय के लिए स्वीकृत पद	संभागायुक्त कार्यालय के लिए स्वीकृत पद	उच्च न्यायालय के लिए स्वीकृत पद	सत्कार / पर्यटन	कुल स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भोपाल	02	02	17	01	-	1	21
2	रायसेन	06	06	04	-	-	-	10
3	राजगढ़	05	05	04	-	-	-	09
4	सीहोर	05	05	05	-	-	-	10
5	विदिशा	08	08	05	-	-	-	13
6	मुरैना	04	04	05	-	-	-	09
7	भिंड	05	05	05	-	-	-	10
8	श्यापुर	03	03	04	-	-	-	07
9	ग्वालियर	04	04	13	01	03	1	22
10	शिवपुरी	05	05	05	-	-	1	11
11	गुना	04	04	05	-	-	-	09
12	अशोकनगर	04	04	03	-	-	-	07
13	दतिया	03	03	05	-	-	-	08
14	होशंगाबाद	05	05	05	-	-	1	11
15	बैतूल	04	04	05	-	-	-	09
16	हरदा	03	03	04	-	-	-	07
17	इन्दौर	04	04	15	01	03	1	24
18	धार	05	05	04	-	-	-	09
19	अलीराजपुर	04	04	05	-	-	-	09
20	झाबुआ	04	04	06	-	-	-	10
21	खरगोन	05	05	06	-	-	-	11
22	खंडवा	04	04	06	-	-	1	11
23	बुरहानपुर	02	02	06	-	-	-	08
24	बडवानी	04	04	08	-	-	-	08

स. क	जिले का नाम	अनुविभागों की संख्या	अनुभागों के लिए स्वीकृत पद	मुख्यालय के लिए स्वीकृत पद	संभागायुक्त कार्यालय के लिए स्वीकृत पद	उच्च न्यायालय के लिए स्वीकृत पद	सत्कार / पर्यटन	कुल स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6		7	8
25	जबलपुर	04	04	13	01	03	1	22
26	कटनी	04	04	05	-	-	-	09
27	नरसिंहपुर	04	04	04	-	-	-	08
28	छिन्दवाड़ा	07	07	05	-	-	-	12
29	सिवनी	06	06	06	-	-	-	12
30	मंडला	05	05	05	-	-	-	10
31	बालाघाट	06	06	05	-	-	1	12
32	शहडोल	04	04	04	-	-	1	09
33	हिंडौरी	02	02	04	-	-	-	06
34	उमरिया	03	03	05	-	-	-	08
35	अनूपपुर	03	03	03	-	-	-	06
36	रीवा	06	06	05	-	-	1	12
37	सीधी	05	05	05	-	-	-	10
38	सिंगरौली	04	04	08	-	-	-	12
39	सतना	08	08	04	-	-	1	13
40	सागर	09	09	05	-	-	-	14
41	दमोह	04	04	05	-	-	-	09
42	छतरपुर	06	06	05	-	-	1	12
43	पन्ना	05	05	04	-	-	-	09
44	टीकमगढ़	03	03	06	-	-	-	09
45	उज्जैन	07	07	10	01		1	19
46	देवास	05	05	05	-	-	-	10
47	मंदसौर	03	03	07	-	-	-	10
48	नीमच	03	03	06	-	-	-	09
49	रतलाम	04	04	05	-	-	-	09
50	शाजापुर	02	02	04	-	-	-	06
51	आगर- मालवा	02	02	03	-	-	-	05
52	निवाड़ी	01	01	05	-	-	-	06
		227	227	297	05	09	13	551

परिशिष्ट "दो "

जिलों के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या का श्रेणीवार
आवंटन

स.क	जिले का नाम	अपर कलेक्टर	संयुक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर	संभागायुक्त कार्यालय	कुल स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	भोपाल	04	16	01	21
2	रायसेन	01	09		10
3	राजगढ़	01	08		09
4	सीहोर	01	09		10
5	विदिशा	01	12		13
6	मुरैना	01	08		09
7	भिंड	01	09		10
8	श्योपुर	01	06		07
9	ग्वालियर	03	18	01	22
10	शिवपुरी	01	10		11
11	दतिया	01	07		08
12	गुना	01	08		09
13	अशोकनगर	01	06		07
14	होशंगाबाद	01	10		11
15	बैतूल	01	08		09
16	हरदा	01	06		07
17	इन्दौर	04	19	01	24
18	धार	01	08		09
19	अलीराजपुर	01	08		09
20	झाबुआ	01	09		10
21	खरगोन	01	10		11
22	खंडवा	02	09		11
23	बुरहानपुर	02	06		08
24	बडवानी	01	07		08

स.क	जिले का नाम	अपर कलेक्टर	संयुक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर	संभागायुक्त कार्यालय	कुल स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
25	जबलपुर	03	18	01	22
26	कटनी	01	08		09
27	नरसिंहपुर	01	07		08
28	छिन्दवाड़ा	01	11		12
29	सिवनी	02	10		12
30	मंडला	01	09		10
31	बालाघाट	02	10		12
32	शहडोल	01	08		09
33	डिंडोरी	01	05		06
34	उमरिया	01	07		08
35	अनूपपुर	01	05		06
36	रीवा	01	11		12
37	सीधी	01	09		10
38	सिंगरौली	01	11		12
39	सतना	01	12		13
40	सागर	01	13		14
41	दमोह	01	08		09
42	छतरपुर	01	11		12
43	पन्ना	01	07		08
44	टीकमगढ़	01	08		09
45	उज्जैन	04	14	01	19
46	देवास	01	09		10
47	मंदसौर	01	09		10
48	नीमच	01	08		09
49	रतलाम	01	08		09
50	शाजापुर	01	05		06
51	आगर मालवा	01	04		05
52	निवाड़ी	01	05		06
		69	477	05	551

परिशिष्ट "तीन"

विभिन्न विभागों के लिये राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में शामिल पद

स. क.	विभाग का नाम	पद नाम	पद संख्या	कुल पद संख्या
1	2	3	4	5
01	सामान्य प्रशासन विभाग	अवर सचिव, मंत्रालय	06	39
		उप सचिव, मंत्रालय	21	
		उप संचालक, प्रशासन अकादमी	02	
		उप सचिव, राज्य भवन	01	
		उप सचिव लोकायुक्त	01	
		राज्य शिष्टाचार अधिकारी	01	
		उपायुक्त मध्य प्रदेश, नई दिल्ली	01	
		लिटिगेशन एवं समन्वय - इन्दौर-1, ग्वालियर-1 जबलपुर-2	04	
		अवर सचिव, राज्य भवन	01	
		शिष्टाचार अधिकारी, मध्यप्रदेश नई दिल्ली	01	
02	राजस्व विभाग	अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर	01	
		भू-प्रबंधन अधिकारी	22	
		संयुक्त आयुक्त, कार्यालय भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर	02	
		उपायुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त	11	
		क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त	09	
		प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला	02	
		उप प्राचार्य राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान	01	
		सर्वे अधिकारी	01	
		केडेस्टल सर्वे अधिकारी	04	
		उपायुक्त राजस्व	12	

स. क.	विभाग का नाम	पद नाम	पद संख्या	कुल पद संख्या
1	2	3	4	5
		अपर नियंत्रक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री	01	75
		उप सचिव, राजस्व मंडल	01	
		अवर सचिव, राजस्व मंडल	01	
		उपायुक्त राहत	01	
		प्रमुख राजस्व आयुक्त, कार्यालय	06	
03	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अपर संचालक	02	04
		संयुक्त नियंत्रक एवं औषधि प्रशासन	01	
		रजिस्टार, फार्मसी काउंसिल	01	
04	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	23	23
05	नर्मदा घाटी विकास विभाग	अपर संचालक	02	30
		संयुक्त संचालक, पुनर्वास	02	
		उप संचालक, पुनर्वास	04	
		भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी	22	
06	श्रम विभाग	उप संचालक	02	02
07	नगरीय विकास एवं आवास विभाग / पर्यावरण विभाग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर	04	08
		भू-अर्जन अधिकारी	01	
		मुख्य संपदा अधिकारी	01	
		उप प्रशासक राजधानी परियोजना	01	
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	
		संयुक्त संचालक	01	
		उप संचालक	06	07

स. क.	विभाग का नाम	पद नाम	पद संख्या	कुल पद संख्या
1	2	3	4	5
08	विमानन विभाग	प्रशासनिक अधिकारी	01	01
09	जन जाति कल्याण विभाग	अपर आयुक्त	02	07
		परियोजना प्रशासक	04	
		सचिव, अनुसूचित जाति आयोग	01	
10	परिवहन विभाग	उप परिवहन आयुक्त	01	06
		क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	05	
11	संस्कृति विभाग	प्रशासकीय अधिकारी	01	01
12	स्कूल शिक्षा विभाग	संचालक लोक शिक्षण	01	07
		उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल	01	
		महाप्रबंधक पाठ्य पुस्तक निगम	01	
		संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	03	
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजीव गांधी शिक्षा मिशन	01	
13	गृह विभाग	अधीक्षक स्टेट गैरेज	01	03
		निष्कासन अधिकारी	01	
		आवंटन अधिकारी	01	
14	लोक निर्माण विभाग	मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	01	01
15	पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण	01	02
		सचिव अल्प संख्यक आयोग	01	
16	पशुपालन विभाग	संयुक्त संचालक	01	02
		उप संचालक	01	
17	उच्च शिक्षा विभाग	अपर संचालक	01	02
		अतिरिक्त संचालक संचालनलाय	01	
18	खनिज साधन विभाग	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	01
19	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	उप मिशन संचालक (प्रशासन)	01	01
		कुल योग		222